

Date: September 03, 2023

Scrip Code – 543715 BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001

IEL **National Stock Exchange of India Limited** "Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex, Bandra (E). MUMBAI - 400 051

Sub.: Newspaper Clippings – 5TH Annual General Meeting of the Members of Indiabulls **Enterprises Limited (the Company)**

Dear Sir/Madam,

Please find attached enclosed clippings of the Advertisements, published on September 3, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers, w.r.t 5th Annual General Meeting of the Company.

We request you kindly take the above on record.

Thanking you,

For Indiabulls Enterprises Limited

AKHILENDR Digitally signed by AKHILENDRA A BAHADUR BAHADUR SINGH SINGH Digitally signed by AKHILENDRA SINGH Digitally signed by AKHILENDRA SINGH Digitally signed by AKHILENDRA SINGH DIGITAL SIGNED BY AKHILENDRA SIGNED B

Akhilendra Bahadur Singh Company Secretary

FE SUNDAY

PHANTOM DIGITAL EFFECTS LIMITED CIN: L92100TN2016PLC103929

Registered Office: - 6th Floor, Tower B, Kosmo One Tech Plot No.14, 3rd Main Road, Ambattur, Chennai, Tamilnadu 600058 Tel; 044-4384 6228, Email ID: cs@phantom-fx.com, Website www.phantomfx.com

INFORMATION REGARDING 07TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 07th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 27th day of September, 2023 at 3.30 p.m. (IST) through VC/ OAVM to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM which is being sent for convening the AGM of the Company.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 read with Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 2/2021 and 2/2022 dated 8" April, 2020 and 13J.April, 2020, 13th January, 2021, 5th May, 2022 and 28" December, 2022 respectively (MCA Circulars) permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM in compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated 5th January, 2023, the Notice of the AGM and Annual Report for Financial Year 2022-2023 are being sent only in electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Annual Report for the financial year 2022-2023 and Notice of the AGM will be dispatched to those shareholders, who

The notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-2023 will also be made available on the website of the Company i.e., www.phantomfx.com and in the websites of the stock exchange where the shares of the Company is listed i.e. www.nseindia.com as well as on the website of the E- voting Partner i.e., www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The Instruction for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM.

The Detailed process and the manner for attending the AGM, casting vote through remote e-voting and e-voting at AGM for Members holding shares in dematerialised mode/physical mode and for Members who have not registered their email address is being provided in the Notes to the AGM Notice, .

Members of the Company holding equity shares of the Company in physical form and who have not registered their e-mail address may get their email address registered with the Company at cs@phantom-fx.com by providing a request letter duly signed by the shareholder providing details such as Name, Folio Number, Certificate Number, PAN, Mobile Number and e-mail address. Members holding shares in Demat Mode are requested to register their e-mail address and mobile number, in respect of Demat holdings with their respective Depository Participants by following the procedure prescribed by the concerned Depository Participants.

Date: 01.09.2023 Place: Chennai

request for the same.

By the order of Board of Directors Sd/-Pallavi Tongia **Company Secretary**



KERALA AYURVEDA LIMITED CIN - L24233KL1992PLC006592

Regd. Office. VII/415, Nedumbassery, Athani P.O., Aluva-683585 Ph: 0484-2476301 (4 lines) Fax: 0484-2474376 E-mail: info@keralaayurveda.biz Website: www.keralaayurveda.biz

NOTICE

NOTICE is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of Members of the Kerala Ayurveda Limited ("Company") will be held on Wednesday 27th September 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC') or Other Audio-Visual Means ('OAVM') to transact the businesses that will be set forth in the Notice of AGM ('Notice')

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder read with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020, General Circular No. 02/2022 dated 05th May 2022, General Circular No.11/2022 dated 28th December 2022 and all other relevant circulars issued from time to time by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (Listing Regulations") read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and all other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue.

In accordance with the MCA Circulars, the Notice will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice will also be available on the website of the Company at https://www.keralaayurveda.biz/, under "Investor Section" and BSE Limited at www.bseindia.com. Further, members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the AGM will be provided in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

Members holding shares in physical form and who have not yet registered / updated their e-mail ID with the Company are requested to register/update their email ID with CDSL by sending requests at helpdesk.evoting@cdslindia.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card and self- attested copy of any other document (e.g. Driving License, Passport, Aadhar Card etc.) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email ID with their respective Depository Participant(s).

The Company will provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice. Additionally, the Company will provide the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for casting votes through remote e-voting at the AGM shall be provided in the Notice.

This advertisement is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the MCA Circulars.

For Kerala Ayurveda Limited

(Rs. In Million)

Date: 3rd Sep 2023 Place: Kerala

Jyothi Gulecha **Company Secretary** Membership No.: 63350

(Rs. In Million)

4665.81

10089.18

35.43

107.34

CJ DARCL LOGISTICS LIMITED

Regd. Office: DARCL House, Plot No. 55P, Institutional Area, Sector-44, Gurugram - 122003 Ph. No. +91-9015202121 Fax: +91-124 4034162 E-mail: co@cjdarcl.com, info@cjdarcl.com CIN: U60222HR1986PLC068818 Head office: 19, Tilak Bazar, Hisar 125 001 (Haryana)

Ph. No. 01662-241003 to 241006 Fax: 01662-232269 E-mail: hisar@cjdarcl.com, Website: www.cjdarcl.com

FORM DPT-1 CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS

3.	General Information	<u> </u>
а.	Name, address, website and other contact details of the company	CJ Darcl Logistics Limited Regd. Office: DARCL, House, Plot No. 55P Sector-44, Institutional Area Gurugram 122003, Ph. No. +91-9015202121, Fax: +91-1244034162 E-mail: co@cjdarcl.com, info@cjdarcl.com CIN: U60222HR1986PLC068818
b.	Date of incorporation of the company	Incorporated as Private Limited Company on 10.12.1986 and became deemed Public Limited on 01.07.1994 and converted into Public Limited on 01.12.1998.
c.	Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any;	The Company is engaged in the business of transportation through Road and Rail and it has 4 Wholly owned Subsidiaries: 1. Transrail Logistics Limited which is engaged in the business of transportation through Road. 2. Darcl Logistics (Nepal) Private Limited in Nepal engaged in business of transportation. 3. Fr8ology Private Limited, engaged in business of online platform for vehicles. 4. CJ Korea Express India Private Limited, engaged in business of transportation and warehousing. Main Branches: Hisar, Delhi, Gurugram, Jamshedpur, Kolkata, Gandhidham, Jamnagar, Surat, Tatanagar, Guwahati, Haldia, Chennai, Bangalore, Panipat, Raigarh, Durgapur, Tuticorin, Tarapur, Ahmedabad, Bhopal, Mumbai, Baroda, Nagpur, Chanderiya.
d.	Brief particulars of the management of the company;	The Company is managed by the Chairman and Managing Director with the assistance of Joint Managing Directors and other Board Members subject to the superintendence, control and directions of the Board of Directors.
e.	Names, addresses, DIN and occupations of the directors	7)
t. No.	Name	Address DIN Occupation

			Nagpur, Chanderiya.	впораі, ми	mbai, Baroda,	
d.	Brief particulars of the manage	ment of the company;	The Company is managed by the Chairman at assistance of Joint Managing Directors and of the superintendence, control and directions of	her Board Men	nbers subject to	
e.	Names, addresses, DIN and o	ocupations of the director	s			400
S.No	Name		Address	DIN	Occupation	-
1	Mr. Krishan Kumar Agarwal		loor, Sahara Grace, Behind Sahara Mall, urgaon, 122001 (Haryana)	00151179	Business	3
2	Mr. Darshan Kumar Agarwal	B-374, Lok \	/ihar, PitamPura, New Delhi-110034.	00151560	Business	
3	Mr. Roshan Lal Agarwal	20/51, Wes	st Punjabi Bagh, New Delhi-110026.	00151657	Business	
4	Mr. Narender Kumar Agarwal		1, Sahara Grace, Behind Sahara Mall, ad, Gurgaon, 122002, (Haryana)	00052456	Business	
5	Mrs. Rajni Gupta	B-261	, Derawal Nagar, Delhi-110009	02135443	Professional	
6	Mr. Chul Moon Park		una Apt 118-201, 21 Wolgye-ro 45-gil, n-gu, Seoul Metropolitan, Seoul	07875018	Service	
7	Mr. Young Ho Ko		-ho, 92, Sangamsan-ro 1-gil Mapo-gu, seoul, South Korea-06089	09629467	Service	
8	Mr. Han Mae Lee		4-ho, 222 Seolleung-ro, Gangnum-gu, ul, Republic of Korea- 06089	09566320	Service	
9	Mr. Jung Hun Baig		ngso-myeon Gimcheon-si, Gyeonsangbuk-do, ea-39659 Republic of Korea	09268841	Service	
10	Mr. Do Young Kim	A-112, First Floor, Noor	Nagar, Jamia Nagar, South Delhi, Delhi-110025	08204199	Service	n e
11	Mr. Subodh Goel	Flat No. 28 B, 2nd	floor, Hans Vihar, Plot No. 35, Sector-13, Rohini, Delhi-110085	09780754	Professional	
12	Mr. Wonchan Lee	12-dong 201-ho, 14 h	lyoryeong-ro 72-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea	09691345	Professional	
f.	financial risks except normal b	usiness risks that any Co	y is investing its funds only for the purpose of bus mpany has to face. The Company has taken out a			180

covering the risks in respect of day to day business and as regard to the Company's properties

Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of) Statutory Dues: Nil

ii) Debentures and interest thereon: Nil lii) Loan from any bank or financial institution and interest thereon: Nil

From Public:-

PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

1389.22 million

Date of passing Board Resolution 28.06.2023 Date of passing resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits. 31.10.2014 Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured Unsecured Details of Deposit amounts: (Rs. in million) Amount which the company can raise by way of deposits as per Act and Rules made there under

From Shareholders:- 555.69 million Total:-1944.91 million Aggregate Deposit held on:

a) Last day of the immediately preceding financial year i.e. 31.03.2023: Rs. 256.64 Million b) On the date of issue of the Circular or advertisement i.e. 28.06,2023: Rs. 235.08 Million iiii) Amount of Deposits proposed to be raised: Rs. 450.00 Million

iv) Amount of Deposits repayable within the Next Twelve months i.e. 28.06.2023 to 27.06.2024 : Rs. 154.96 Million Terms of raising of deposits

i) NON-CUMULATIVE DEPOSIT SCHEME (Interest payable quarterly) Minimum Deposit (₹) Rate of Interest (p.a.) Duration' 50.000/-6 months and less than 12 months 6.00% 50.000/-12 months and less than 24 months 7.25% 50,000/-24 months and less than 36 months 7.50%

36 months		50,000/-		7.50%	
ii) CUMULATIVE DEP	OSIT SCHEME (Interest comp	pounded quarterly)	uarterly)		
Period in *Months	Minimum Deposit (₹)	Rate of Interest (p.a.)	Annual Yield	Amount repayable on maturity (₹)	
06	20,000/-	6.00%	6.05%	Rs. 20605/-	
12	20,000/-	7.25%	7.45%	Rs. 21490/-	
24	20.000/-	7.50%	8.01%	Rs. 23204/-	

The minimum and maximum period of the deposit is 6 months and 36 months respectively. During the period between 6 months and 36 nonths, deposits will also be accepted in multiple of month along with multiples of 3 months for both Non-Cumulative and Cumulative schemes. Note: 1. Amount in excess of minimum amount shall be accepted in multiples of 1000/- only. In case of Non-Cumulative deposit scheme,

7.50%

8.32%

interest can be paid monthly at the request of the depositor

20,000/-

Note: 2.0.50% p.a. extra interest would be paid under both the schemes to Senior Citizens. Mode of Payment Cheque, Demand Draft or RTGS Cheque, Demand Draft (NEFT or RTGS on request)

Mode of repayment f. Proposed time schedule i) Date of Opening the scheme: 04.09.2023

ii) Time period for which the circular or advertisement is valid: 30.09.2024 or the date of AGM for the F.Y. 2023-24, whichever is earlier g. Reasons or objects of raising the deposits: For short-term /working capital requirement of funds

Credit rating obtained Name of the Credit Rating Agencies : CRISIL

duration of default involved.

Rating obtained : A- (Stable)

iii) Meaning of the rating obtained: Adequate Safety

iv) Date of rating: Reaffirmed on 30.06.2023

Extent of deposit insurance Omitted by Companies Amendment Act, 2017 effective 5th July, 2018

Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits

Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any: N/A (As Company is accepting Unsecure

Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of suc interest in so far as it is different from the interests of other persons. : Nil DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS ACCEPTED TILL 31.03.2023; (As on 28.06.2023)

Amount Outstanding Rs.235.08 Million Upto 31.03.2023 b. Date of acceptance

Rs. 256.64 Million Total amount accepted

d. Rate of interest Upto 8.25% p.a Compounded quarterly 437 (As on 31.03.2023) Total number of depositors Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and

Date: 03.08.2023 Place: New Delhi

Rs. 24994/-

FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY a. Profit of the Company before and after making provision for tax

Profit Before Tax Profit After Tax Financial Year ended 31.03.2021 405.49 303.61 31.03.2022 787.94 605.23 31.03.2023 842.63 659.54 Dividend declared by the company and interest coverage ratio in respect of the said three financial years

Interest Coverage Ratio Dividend Declared Amount (₹ In Million) % 31.03.2021 NIL 2.07 Times 31.03.2022 NIL NIL 4.85 Times 31.03.2023 NIL 2.87 Times NIL c. A summary of the financial position of the Company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue

of circular or advertisement.			(Rs. In Million)	
Particulars	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	
Assets	1 5425 50 11 31 000 5000	1000-10		
Non-current assets		0		
Fixed assets				
Tangible assets	3282.19	2128.90	1999.85	
Intangible assets	68.67	47.49	48.70	
Investment properties	43.40	45.44	47,48	
Right of use assets	793.47	508.12	218.15	
Capital work-in-progress	129.65	44.25	0.45	
Non-current investments	185.18	185.18	185.46	
Loans and advances	96.25	82.60	48.85	
Non-current tax assets (net)	1063.00	645.66	261.93	
Other non-current assets	28.36	32.18	27.70	
	5690.17	3719.82	2838.57	
Current assets				
Current Investments	1.01	11.33	(84	
ContractAssets	357.45	345.53	301.03	
Inventories	36.77	15.99	9.29	
Trade receivables	7565.42	7631.47	5958.76	
Cash and bank balances	125.24	95.88	176.56	
Loans and advances	317.67	241.56	448.41	
Other current assets	581.39	555.05	308.11	
	8984.95	8896.81	7202.16	
Asset held for sale	20.40	79.60	48.45	
TOTAL	14695.52	12696.23	10089.18	
Equity and Liabilities				
Shareholders' Funds			8	
Share capital	226.62	226.62	226.62	
Reserves and surplus	5440.94	4780.60	4182.34	
	5667.56	5007.22	4408.96	
Non-current liabilities				
Long-term borrowings	2347.28	960.55	726.73	
Long-term provisions	1.60	5-		
Other long-term liabilities	146.23	154,41	94.13	
Deferred tax liabilities (net)	120.15	78.71	68.71	
Lease liabilities	648.41	386.98	124.84	
Eddor Habilioto	3262.07	1580.65	1014.41	
Current liabilities	0202101	1000.00	2 1000,5000	
Short-term borrowings	3729.28	4341.02	3422.27	
Contract Liabilities	14.06	28.14	12.58	
Trade payables	1379.60	1207.57	905.75	
Other current liabilities	458.39	512.30	244.00	
Short-term provisions	20.00	20.00	15.00	
Lease liabilities	164.56	99.33	66.21	
Loado nacinos	104.00	4100	00.21	

(Rs. In Million) Particular 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2021 Net Cash from/used in operating activities (A) 1310.77 (299.13)630.73 (1484.82)(569.06)(137.45)Net Cash from/used in investing activities (B) Net Cash from/used in financing activities (C) 778.32 (421.37)213.19 71.91 Net cash increase/decrease in cash and cash equivalents (A+B+C) 39.14 (89.87)

6108.36

12696.23

107.34

17.47

e. Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the Company. The Balance Sheet for the FY 2022-23 has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules. 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable

17.47

THE DIRECTORS HEREBY DECLARES THAT

Cash and cash equivalents at the end of the year

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

TOTAL

a. The company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest thereon. b. The Board of Directors has satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are

of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement. The company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder

d. The compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government. e. The deposits accepted by the Company before the commencement of the Act have been repaid (or will be repaid along with

5765.89

14695.52

d. Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;

interest within one year and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities). This is however subject to the provisions contained in the Companies (Acceptance of Deposit Rules) 2014 which states that the provision of clause (b) of subsection (1) of section 74 of the Act shall be deemed to have been complied with if Company complies with requirements under the Act and rules made there under and continues to repay such deposits and interest due thereon on due dates for remaining period of such deposits in accordance with the terms and conditions and period of such earlier deposits and in compliance with the requirements under the Companies Act, 2013 and rules made there under. In case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty.

g. The deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement. h. The deposits accepted by the company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are

unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the company. 6. DISCLAIMER- It is to be distinctly understood that filling of circular or circular in the form of advertisement with the Registrar should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by the Registrar or Central Government. The Registrar or Central Government does not take any responsibility either for the financial soundness of any deposit scheme for which the deposit is being accepted or invited or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the circular or circular in the form of advertisement. The depositors should exercise due diligence before investing

in the deposits schemes. The Circular or circular in form of advertisement inviting deposits is issued on the authority and in the name of directors of the company and its text has been approved in the Board of Directors meeting held on 28.06.2023 by majority of Directors on the Board of the Company. By the order of Board of Directors

For CJ Darcl Logistics Limited

Date: 03.09.2023 Krishan Kumar Agarwal Palce: Gurugram Chairman and Managing Director

Auditor Certificate on DPT-1 S.R. Batliboi & Associates LLP, Statutory Auditors of CJ Darcl Logistics Limited confirms that the nothing has come to our attention that

deposits accepted with the Audited books of accounts and other records maintained by the Company either before or after the commencement of the Act, for the period April 1, 2018 to March 31, 2023. Our certificate is based on procedures performed by us according to information and explanation received and based on management

causes us to believe that the Company has committed default in the repayment of deposits or in the payment of interest on such

For S.R. Batliboi & Associates LLP Chartered Accountants Firm Regn No. 101049W/E300004 per Yogesh Midha 144, C-Wing, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road New Delhi,110001 CIN: L70101DL2005GOI132162 Website: www.hpil.co.in Email: info@hpil.co.in

Reg. Office Address: Room No.

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise) हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

INFORMATION ON 19th ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the members of the

Company will be held on Wednesday, the 27th September, 2023 at 12:00 noon (IST) through Video onferencing (VCV Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the notice The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide circular dated 28th December, 2022 SEBI vide Circula dated 5th January, 2023 read with other relevant circulars of MCA/ SEBI, permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of members at common venue The dispatch of 19th Annual Report of the Company for FY 2022-23 has been completed on September

01,2023 through electronic mode to the members whose email address are registered with the Depositories/ Registrar & Transfer Agent, in compliance of the SEBI circulars. Further, notice of AGM and Annual Report are also available on the website(s) of Company at www.hpil.co.in, websites o Stock Exchange(s) i.e., National Stock Exchange of India Limited www.nseindla.com and BSE .imited i.e., www.bseindia.com and website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. n compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations

2015 as amended, the Company is pleased to offer e-voting facility (both remote e-voting and voting al

the time of AGM) through the NSDL to all the eligible members in respect of all the items to be

transacted at AGM through voting by electronic means, whose names are recorded in the Register of

Members (holding in physical form) or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories (holding in electronic form) on Wednesday, the 20th September, 2023 (cut-off date) . The remote e-voting period shall commence on Sunday, the September 24, 2023 (9:00 a.m. IST) ends on Tuesday, the September 26, 2023 (5:00 p.m. IST) and members shall not be allowed to vote hereafter. The members who have not casted their vote through remote e-voting can cast during the AGM using NSDL login portal. Further, the members who have casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again, Further, members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be entitled to change it subsequently or vote again at the AGM, Any person whose e-mail ID is not registered with the Company/DP or who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut-Off date, may obtain the user ld and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdlco.in with a copy marked to info@hpil.co.in. The Company has appointed CS Rahul Chaudhary (ACS 54713) of M/s Rahul Chaudhary & Associates as

and transparent manner. n case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for shareholders and Voting user manual for shareholders, available at the download section of www.evoting.nsdl.com refer to instructions as mentioned in the notice of 19th AGM or call at 022 -4886 7000 and 022 - 2496 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms, Pallavi Mhatre, Manager, NSDL a paliavid@nsdlco.in.

crutinizer for conducting the electronic voting process prior to the AGM and during the AGM, in a fair

For Hemisphere Properties India Limited

Date: 01.09.2023 Place: New Delhi

BSE Limited at www.bseindia.com.

Place: New Delhi

Lubna Company Secretary & Compliance Officer

SONAL MERCANTILE LIMITED Registered office: 365, Vardhman Plaza, III Floor, Sector-3, Rohini, New Delhi -110085

CIN: L51221DL1985PLC022433, Tel: 011-49091417 E-mail: sonalmercantile@yahoo.in, Website: www.sonalmercantile.in NOTICE TO THE MEMBERS OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the members of Sona

IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business that will be set forth in the Notice of AGM. Pursuant to the Circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs (MCA) companies are allowed to hold AGM through VC/OAVM without the physical presence of members at a common venue The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2022- 2023, inter-alia, containing Board's Report, Auditors' Report and Audited Financial Statements will be sent through electronic mode only to those members who have registered their email addresses with the Company/ Depository Participant(s) in accordance with the aforesaid Circulars, Members may note that the Notice of AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.sonalmercantile.in, National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com,

September 23rd, 2023 shall be entitled toe-voting. Electronic voting shall also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not casted their vote through remote Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September 2023 (both days inclusive).

voting through remote e-voting and voting at the AGM Day, date and time of Commencement of remote e-voting Wednesday, September

27th, 2023 (9:00 a.m. IST) Day, date and time of end of remote e-voting Friday, September 29th, 2023 (5:00 p.m. IST)

can be used for casting vote. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM.

Questions (FAQs) and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Sonal Mercantile Limited Akshay Khare

Date: September 02, 2023

(CIN: U71290HR2019PLC077579) Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1,

Gurugram - 122 016, Haryana Tel./Fax: 0124 4109501 Website: www.indiabullsenterprises.com E-mail: cs.iwsl@indiabulls.com PUBLIC NOTICE OF CONVENING 05™ ANNUAL

Members of Indiabulls Enterprises Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28, 2023, at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), for which the Company has made arrangements through KFin Technologies Limited ("KFintech"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securitles and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Auditor's Report and other documents required to be attached therewith ("Annual Report"), will be sent in due course, only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository's Participant(s) ("DPs")/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company viz. www.indiabullsenterprises.com and also on the Website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM notice and Annual Report will also be available on the website of RTA i.e. KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") to those Members who could not cast their vote(s) by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before the AGM ("remote e-voting"), as well as during the AGM ("e-voting") and participation in the AGM through VC/OAVM, has been provided in the notes to AGM Notice which will be sent in due course, and shall be available on the websites of the Company, RTA, and Stock Exchange(s), as above.

Links for remote e-voting and joining AGM through VC/OAVM facility for Members, including for such Members who are holding shares in physical form, are provided below. Members are requested to carefully read all the Notes set out in AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting votes

Link to VC / OAVM https://emeetings.kfintech.com/ Link for remote e-voting For Individual Members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual Members and Members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com

their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and RTA at www.indiabullsenterprises.com and https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc download hrd, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B. Plot No - 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi - 500 032, Telangana.

b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain in their demat accounts.

For Indiabulls Enterprises Limited

Akhilendra Bahadur Singh Company Secretary







Membership No. 94941

Partner

Mercantile Limited ('the Company') will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 11.00 A.M

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date of

e-voting shall be able to vote at the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. In case shareholders have not registered / updated their email address with the Depositories/ RTA, are requested to kindly update the E-mail Id by contact your Depository participants/RTA viz skyline financial services limited at www.skylinerta.com, & Company on sonalmercantile@yahoo.in. for more details kindly refer to Annual report of the company. The register of members of Company will remain closed from Cut-off Date for determining the eligibility of Members for Saturday, 23rd September,

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 23rd September 2023 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However,

if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password

In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked

Company Secretary

Indiabulls INDIABULLS ENTERPRISES LIMITED

GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM Notice is hereby given that the 05th Annual General Meeting ("AGM") of the

In accordance with the relevant circulars, the AGM Notice and the Annual Report for the financial year 2022–23 comprising of Financial Statements, Board Report's,

through e-voting.

Manner of registering/updating e-mail address:

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated

By Order of the Board

टावर-२, दूसरी मंजिल,१-१४, सेक्टर-१२८, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, यू.पी.एक्सिस बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, अचल संपत्ति की बिक्री के विज्ञान्तिक्स, एनपीसी-1, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, मुगलसन रोड, ऐरोली, नर्व लिए ई-नीलामी मुंबई -400708,पंजीकृत कार्यालयः "त्रिशूल", तीसरी मंजिल,समर्थेश्वर मंदिर लॉ बिक्री सुचना गार्डन के सामने, एलिसब्रिज अहमदाबाद-380006 और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणीयों एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णि अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार व अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिसकी बिक्री ऋण संख्या 918030017513459, 917020034679576, 920060051314438 के अंतर्गत 1.मैसर्स ड्रीम पैनल्स प्रा. लिमिटेड, 2. श्री संदीप गोयल (मृतक के बाद से) अपने एलआरएस के माध्यम से (क) सुश्री सवित्री गोयल (मां), (ख) रुचि गोयल (पत्नी), (ग) स्वर्गीय श्री संदीप गोयल के नाबालिग बेटे / बेटी के माध्यम से उनकी माता 3. श्रीमती रुचि गोयल से सुरक्षित लेनदार के बकायों के कारण दिनांक 31.08.2021 की स्थिति के अनुसार बकाया रु. 2,74,17,110 57 / — (दो करोड़ चौहत्तर लाख सत्रह हजार एक सौ दस रूपए एवं सत्तावन पैसे मात्र) एवं भविष्य के ब्याज और लागत की वसूली के लिए "जैसा है जहां है"," जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" पर दिनांक

21.09.2023 को बेचा जाएगा। कृपया आवश्यक विवरण के लिए संलग्न नीलामी अनुसूची देखें:

ज्ञात भार (याद काइ हा):	ज्ञात नहा
आरक्षित मूल्य (रुपये में)	रु. 3,25,00,000 / — (रू. तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
धरोहर जमा राशि (रुपये में)ः	रु. 32,50,000 / — (रु. बतीस लाख पचास हजार मात्र) एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में एवं दिल्ली में देय डीडी / पीओ के माध्यम से।
बोली वृद्धि राशिः	रु. 10,000/— (केवल दस हजार रुपये)
ईएमडी के साथ बोलियां/निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय और स्थानः	20 सितम्बर, 2023 तक, अधिकतम सायं 05:00 बजे तक, एक्सिस हाउस, टावर—2, दूसरी मंजिल, 1—14, सेक्टर—128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा—201301, यू.पी. ,श्री अनुज गुप्ता को संबोधित।
सार्वजनिक ई—नीलामी हेतु दिनांक, समय और स्थान :	21 सितम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे। इसकें वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा आदि सहित ई—नीलामी निविदा दस्तावेज उपरोक्त विवरण के अनुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अनुसूची-संपत्ति का विवरण मस्जिद मोठ ग्रेटर कैलाश–III, नई दिल्ली में स्थित ब्लॉक ई में नं. 127 की संपत्ति की पूरी तीसरी मंजिल, जिसमें संलग्न बाथरूम के साथ तीन बेडरूम, ड्राइंग / डाइनिंग रूम, रसोई, इमारत के सामने बायीं ओर स्टिल्ट में अलग गेट के साथ एक कार पार्किंग के स्थान के साथ सामने और पीछे की बालकनी शामिल हैं और स्टिल्ट में स्नानघर और कॉमन डब्ल्यू.सी. के साथ एक यूटिलिटी के लिए जगह और संपत्ति की पूरी तीसरी मंजिल पर और ऊपर संपूर्ण छत का अधिकार (उक्त छत और उसके बाद की छतों पर और उसके ऊपर आकाश की सीमा तक किसी भी क्षेत्र / मंजिल के निर्माण और जब एमसीडी द्वारा अनुमति दी जाती है और स्वामित्व के अधिकार के साथ), मस्जिद मोठ, ग्रेटर कलाश पार्ट—III, नई दिल्ली स्थित ब्लॉक ई में 180 वर्ग मीटर वाली संख्या 127 के तहत फ्रीहोल्ड भूमि में आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकार के साथ सुपर स्ट्रक्चर, बिजली और पानी के कनेक्शन, फिक्स्चर और फायरिंग आदि के साथ सभी अधिकारों, शीर्षक और हित, सुंख—सुविधाओं, विशेषाधिकारों और अनुलग्नकों के साथ सभी अधिकारों के साथ सामान्य प्रवेश द्वार, मार्ग, सीढ़ियां, लिफ्ट और अन्य सामान्य सुविधाएं और सुख—सुविधाएं शामिल 🕏 : सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार है: पूर्व — विक्रय पत्र के अनुसार, पश्चिम — विक्रय पत्र के अनुसार, उत्तर — विक्रय पत्र के अनुसार, दक्षिण – विक्रय पत्र के अनुसार, बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यार्न https://www.axisbank.com/auction-retail और बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड के पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर दिए गए लिंक को देखें। नीलामी, बैंक के अनुमोदिर सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। किसी अन्य सहायता के लिए इच्छुक बोलीदाता श्री अनुज गुप्ता, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के मोबाइल संख्य +91 9911882040 से कार्यालय समय के दौरान सुबह 09:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आपका सुभचिन्तक

दिनांक-03.09.2023 |स्थान-नोएडा

[कम्पनी (जम

1.सामान्य सूचना

क कंपनी का ना

ਕਿਸ਼ਤ ਆਰ (ਸਹਿ ਤੀਤ ਤੀ)

प्राधिकृत अधिकारी कृते एक्सिस बैंक लिभिटेड

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 02 सितंबर, 2023

बॉनलोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ७ए/३९, १२ (पहली मंजिल), ढब्ल्युईए वन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 फोनः 011-47532795, फैक्सः 011-47532798, ईमेलः cs@bonionindustries.com, सीआईएनः L27108DL1998PLC097397

नोटिस - 26वीं वार्षिक आम बैठक

यह सूचित किया जाता है कि, मैसर्स बॉनलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") की 26वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमावली के सहपवित दिनांक २८ दिसंबर २०२२ के परिपत्र संख्या १० / २०२२, दिनांक ०८ अप्रैल २०२० के परिपत्र संख्या १४ / २०२०, दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपन्न संख्या 17/2020, दिनांक 05 मई, 2020 के परिपन्न संख्या 20/2020, दिनांक 05 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 (सामृष्टिक रूप से इन्हें 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया गया है) और दिनांक जनवरी 5, 2023 का सेबी परिपत्र संख्या सेवी / एचओ / सीएफडी / पीओडी--2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4, और दिनांक 13 मई, 2022 के सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपन्न') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र सामूहिक रूप से एतदद्वारा 'परिपत्र' के रूप में संदर्गित किया गया है), शुकवार, 29 सितम्बर, 2023 को दोपहर 02:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसके साथ कोई भी अन्य परिपन्न जो 26वीं एजीएम के आयोजन के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों के संचालन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उचित समय पर भेज

सदस्य ध्यान दें कि उपरोक्त परिपन्नों के अनुपालन में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए 26वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, 26वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आस्टीए") के साथ पंजीकृत किए गये हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए की जाएगी। कंपनी पहले के अभ्यास की तरह अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 26वीं एजीएम के नोटिस की ई-कॉपी कंपनी की वेबसाइट www.bonlonindustries.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उचित समय पर उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 26वीं एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे। तदनुसार, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की एजीएम में

कृपया नीचे वर्णन किए अनुसार इसे पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन करें:

कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता डी-मैट रूप में है, इसलिए यह प्रावधान कंपनी पर घारिता लागू नहीं होता है।

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई धारिता प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें या कंपनी बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के आरटीए के साथ www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx के लिंक पर क्लिक करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करें।

इपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर NACH द्वारा लाभांश भूगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें। सदस्य इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के

साथ पंजीकृत की गई है, तो एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग करने के लिए लॉग इन आईडी और पासवर्ड 26वीं एजीएम नोटिस के साथ आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। हालाँकि, जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं, वे ऊपर बताई गई ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का भी एजीएम के नोटिस में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और हितों के लिए एमसीए सर्कुलर और सेबी

सर्कुलर के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

के लिए और उनकी ओर से हस्ता/-नवीन कमार (कंपनी सचिव)

बी.सी. पावर कंटोल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L31300DL2008PLC179414) पंजीकृत कार्यालयः 7ए/39, डब्ल्यूईए चन्ना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ईमेलः info@bonlongroup.com, वेबसाइटः www.bcpowercontrols.com फोन: 011-47532795, फैक्स: 011-47532798

सार्वजनिक सूचना - 15वीं वार्षिक आम बैठक

यह सुचित किया जाता है कि, मैसर्स बी. सी. पावर कंट्रोल्स लिमिटेड (कंपनी) की 15वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमावली के सहपठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपन्न संख्या 10 / 2022. दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपन्न संख्या 14 / 2020. दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपन्न संख्या 17/2020, दिनांक 05 मई, 2020 के परिपन्न संख्या 20/2020, दिनांक 05 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 (सामृहिक रूप से इन्हें 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया गया है) और दिनांक जनवरी 5, 2023 का सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एवओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4, और दिनांक 13 मई, 2022 के सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपन्न') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र सामृहिक रूप से एतदद्वारा 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित किया गया है), शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को दोपहर 02:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल (ओएबीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसके साथ कोई भी अन्य परिपन्न जो 15वीं एजीएम के आयोजन के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों के संचालन के लिए निर्दिष्ट किया गया है, उचित समय पर भेज

सदस्य ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के लिए 15वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, 15वीं एजीएम का नोटिस और विसीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आस्टीए") के साथ पंजीकृत किए गये हैं। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए की जाएगी। कंपनी पहले के अभ्यास की तरह अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग की सविधा भी प्रदान कर रही है।

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022 - 23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 15वीं एजीएम के नोटिस की ई-कॉपी कंपनी की की वेबसाइट www.bcpowercontrols/com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उचित समय उपलब्ध होगी।

सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 15वीं एजीएम के नोटिस में दिए जाएंगे। तदनुसार, कृपया ध्यान दें कि कंपनी की एजीएम में

कृपया नीचे वर्णन किए अनुसार इसे पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन करें:

के लिंक पर विलक करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करें!

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । किसी मामले में यदि ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकत नहीं किया गया है, तो

भौतिक | कंपनी की 100 प्रतिशत शेयरधारिता डी-मैट रूप में है, इसलिए यह प्रावधान कंपनी पर घारिता लाग नहीं होता है।

कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई धारिता प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें या कंपनी बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के आरटीए के साथ www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx

कृपया कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर NACH द्वारा लामांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

सदस्य इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि आपकी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत की गई है, तो एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग करने के लिए लॉग इन आईडी और पासवर्ड 15वीं एजीएम नोटिस के साथ आपके पंजीकृत ई—मेल पते पर भेजे जाएंगे। हालाँकि, जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल-आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं, ये ऊपर बताई गई ई-मेल आईडी पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का भी एजीएम के नोटिस में उल्लेख किया गया है। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और हितों के लिए एमसीए सर्कुलर और सेबी

सर्कुलर के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं। बी.सी. पावर कंट्रोल्स लिमिटेड

के लिए और उनकी ओर से हस्ता /-डिंपल मलिक (कंपनी सचिव)

(रु. मिलियन में)

च्यान कथरेन अनुपात

2.07

4.85

2.87

Indiabulls

INDIABULLS ENTERPRISES LIMITED (CIN: U71290HR2019PLC077579) Registered Office: 5th Floor, Plot No. 108, IT Park, Udyog Vihar, Phase 1, Gurugram - 122 016, Haryana Tel./Fax: 0124 4109501

Website: www.indiabullsenterprises.com E-mail: cs.iwsl@indiabulls.com PUBLIC NOTICE OF CONVENING 05TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that the 05th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Indiabulls Enterprises Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 28, 2023, at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), for which the Company has made arrangements through KFin Technologies Limited ("KFintech"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the relevant circulars, the AGM Notice and the Annual Report for the financial year 2022-23 comprising of Financial Statements, Board Report's, Auditor's Report and other documents required to be attached therewith ("Annual Report"), will be sent in due course, only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository's Participant(s) ("DPs")/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company viz. www.indiabullsenterprises.com and also on the Website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM notice and Annual Report will also be available on the website of RTA i.e. KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the AGM Notice. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") to those Members who could not cast their vote(s) by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before the AGM ("remote e-voting"), as well as during the AGM ("e-voting") and participation in the AGM through VC/OAVM, has been provided in the notes to AGM Notice which will be sent in due course, and shall be available on the websites of the Company, RTA, and Stock Exchange(s), as above.

Links for remote e-voting and joining AGM through VC/OAVM facility for Members, including for such Members who are holding shares in physical form, are provided below. Members are requested to carefully read all the Notes set out in AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting votes through e-voting.

Link to VC / OAVM	https://emeetings.kfintech.com/
Link for remote e-voting	For Individual Members: https://www.evoting.nsdl.com/ (holding securities in demat mode with NSDL) https://www.cdslindia.com/ (holding securities in demat mode with CDSL) For non-Individual Members and Members holding shares in physical form: https://evoting.kfintech.com

Manner of registering/updating e-mail address:

a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their e-mail address by submitting Form ISR-1 (available on the website of Company and RTA at www.indiabullsenterprises.com and https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc_download_hrd, respectively) duly filled and signed along with the supporting documents to KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot No - 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi - 500 032, Telangana.

b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address, are requested to register/update their e-mail address with the Depository Participant(s), where they maintain in their demat accounts.

By Order of the Board For Indiabulls Enterprises Limited

Place: Gurugram Date: September 2, 2023 Akhilendra Bahadur Singh Company Secretary

्री Darci सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः डार्सल हाउस, प्लॉट नंबर 55पी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम- 122003

फोन नंबर +91-9015202121, फैक्स: +91-124 4034162, ई-मेल: co@cjdarcl.com, info@cjdarcl.com कंपनी पहचान संख्या: U60222HR1986PLC068818 प्रधान कार्यालय : 19, तिलक बाजार, हिसार -125 001 (हरियाणा), फोन नंबर 01662-241003 से 241006,

फैक्स: 01662-232269, ई-मेल: hisar@cjdarcl.com, वेबसाइट: www.cjdarcl.com

	के लिए परिपन्न अथवा विज्ञापन के रूप में परिपन्न	
माओं की स्वीकृति) नियमावली 2014 की धारा	73(2)(क) एवं धारा 76 तथा नियम 4(1) एवं 4(2) के अनुपालन र	i
T V	// // // // // // // // // // // // //	
	सीजे डासॅल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः डासॅल हाउस, प्लॉट नंबर 55पी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरु	

122003 फोन नंबर+91-9015202121, फैक्स: +91-124 4034162, ई-मेल: hisar@cjdarcl.com, कंपनी पहचान संख्या : U60222HR1986PLC068818 ख कंपनी के निगमन की तिथि 10.12.1986 को पाइवेट लिपिटेड कंपनी के रूप में निगमित और 01.07.1994 को पब्लिक लिमिटेड माना गया और 01.12.1998 को पब्लिक लिमिटेड में परिवर्तित किया गया। कंपनी सड़क और रेल के माध्यम से परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है और पूर्ण स्वामित्व म आखाओं या इकाइयों, यदि कोई हो, के विवरण के साथ कंपनी और उसको सहायक कंपनियों द्वारा किया गया व्यवसाय: वाली इसकी 4 सहावक कंपनियां हैं: ट्रांसरेल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जो सड़क मार्ग से परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है।

> हुई है। वाहनों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारोबार में लगी फ्रैटोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सीजे कोरिया एक्सप्रेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, परिवहन और वेयरहाउसिंग के कारोबार में लगी हुई है। मुख्य शाखाएँ हिसार, दिल्ली, गुरुग्राम, जमशेदपुर, कोलकाता, गांधीधाम, जामनगर, सुरत, टाटानगर, गुवाहाटी,

हल्दिया, चेन्नई, बैंगलोर, पानीपत, रायगढ़, दुगापुँर, तृतीकोरिन, तारापुर, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, बड़ौदा, नागपुर, चंदेरिया।

नेपाल में डार्सल लॉजिस्टिक्स (नेपाल) प्राइवेट लिमिटेड परिवहन के व्यवसाय में लगी

सर्विस

सर्विस

28.06.2023

31,10,2014

म्याज की दर (वार्षिक)

6.00%

09629467

09566320

म कंपनी के प्रबंधन का संक्षित विवरण: कंपनी का प्रबंधन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा संयुक्त प्रबंध निदेशकों और बोर्ड के अन्य सदस्यो की सहायता से किया जाता है, जो निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन है

इ निदेशकों के नाम, पते, डीआईएन तथा व्यवसाय				
¥.	नाम	पता	डीआईएन	व्यवसाय
1	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल	बी-05/405, मृतीब तल, सहारा ग्रेस, सहारा मॉल के पीछे, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)	00151179	ब्यापार
2	श्री दर्शन कुमार अग्रवाल	बी-374, लोक विहार, पीतम पुरा, नई दिल्ली-110034	00151560	व्यापार
3	श्री रोशन लाल अग्रवाल	20/51, पत्रिचमी पंजाबी साग, नई दिल्ली-110026	00151657	च्यापार
4	श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	ए-05/110, पीदी-1, सहारा ग्रेस, सहारा मॉल के पीछे, एम.जी. रोड, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा)	00052456	व्यापार
5	श्रीमती रजनी गुप्ता	थी-261, डेरावाल नगर, दिल्ली -110009	02135443	पेशेवर
6	श्री चुल मृन पार्क	लोट्टे कैसल लूना अपार्टमेंट 118-201, 21 योल्गाये-आरओ-गिल, नोयोन-गु, सियोल मेट्रोपोलिटन, सियोल	07875018	सर्विस

710-डोंग 603-हो, 92, सैंगमसैन-आरओ 1-गिल मैपो-गु, सियोल, दक्षिण कोरिया-06089

101-डोंग 804-हो, 222 सिबोर्लुग-रो, गैंगनम-गु, सिबोल, कोरिया गणराज्य-06089

36-5, नामगोक-गिल, नोंगसो-मियोन गिमचियोन-सी, गियोनसैंगचुक-दो, कोरिया-39659 श्री जंग हुन वैग सर्विस 09268841 श्री डॉ यॉन्ग किम सर्विस 08204199 ए-112, प्रथम तल, नूर नगर, जामिया नगर, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली- 110025 श्री सुबोध गोयल 09780754 फ्लैट में, 28 बी, दूसरी मंजिल, हंस विहार, प्लॉट में, 35, सैफ्टर- 13, रोहिणी, दिल्ली- 110085 12-होंग 201-हो, 14 झोरपॉंग-आरओ 72-मिल, मिथोची-म, सिवोल, फोरिया 09691345 जोखिम कारकों के बारे में प्रबंधन की धारणा कंपनी अपने धन का निवेश केवल व्यवसाय के उद्देश्य से कर रही है और इसलिए सामान्य व्यावसायिक जोखिमों को छोड़कर कोई विशोध जोखिम नहं

है जिसका कियी भी कंपनी को सामना करना पहला है। कंपनी ने दिन-प्रतिदिन के कारोबार के संबंध में और कंपनी की संपन्ति के संबंध में जोतिसमें करे कवर करने के लिए पर्याप्त सीमा पॉलिसिया हु। निम्नलिक्षित को पुकीतो में शामिल राशि, यूक की अवधि और वर्तमान रिचति राहित पूक का विवरण) व्यविधिक चकाषाः सून्य ५ क्रिक्रेयर और उस पर स्वाज- अन्य

) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण और उस पर स्थात: शुन्य क बोर्ड का संकल्प पारित होने की तिथि ऐसी जनाराशियों के आमंत्रण को प्राधिकृत करते हुए सामान्य पैटक में प्रस्ताय परित करने की विधि।

ओ यंग हो को

श्री इनमें ली

म जिमाराशियों के प्रकार अधीत प्रतिभूत या अप्रतिभूत प्र जमा राशि का विवरण : (श. मिलियन में) i) यह राष्ट्रि जो कंपनी अधिनियम और उसके तहत यनाए गए नियमों के अनुसार जामा कर सकती है। जनता से :- 1389.22 पिलियन

शेयरधाकों से :- 555.69 मिलियन फुल :- 1944.91 विक्रिया ii) विधि तक धारित कुल जमाः

a) विशोध वर्ष के टीक पहले का अंतिम दिन यानी 31.3.2023: ए. 256.64 मिलियन b) परिपन्न या विज्ञापन जारी करने की तिथि पर अर्थात 28.06.2023 की: N. 235.08 मिलियन iii) प्रश्तावित जमा राशिः रः. 450.00 मिलियन

iv) अगले चारह महीनों पानी 28.06.2023 से 27.06.2024 के भीतर चुकाने चोग्य जमा राशिः रु. 154.96 मिलियन 🔻 नमाओं की उत्पाती की अर्थीय

असंख्वी जमा योजना (स्वाज निमाही देव)

arefu-ल्यासम् अमा (क.) 6 मार तथा 12 मार से कम 50.000/-

12 मह तथा 24 मह से कम 50.000/-7.25% 50.000/-7.50% 24 मह तथा 36 मह से फम 50.000/-7.50% 36 FIRE II) यंचयी जमा योजना (स्थान तिमारी कम्पाइदेह) अवधि माह में * च्यात्र की दर (वार्षिक) वाषिक उगाही परिपक्तामा पर न्यूनतम जमा (क.) देव गति (म.) 20,000/-6.00% 6.05% ₹, 20605/-

20,000/-12 7.25% 7.45% ₩, 21490/-24 20.000/-7.50% 8.01% T. 23204/-20,000/-7.50% 8.32% € 24994/-

"जम्म की न्यूनतम और अधिकतम अवधि ऋमशः 6 मार्थि और 36 मार्थि हैं 16 मार्थि में 36 मार्थि की अवधि के दौरान, मैर-संबर्ध और संबर्ध दोनों पोजनाओं के लिए 3 मार्थि के पुणकों में भी जम नोट: १. न्यूननम राणि से अधिक राणि १०००:- के गुणकों में ही स्वीकार की आएगी। गैर-संबंधी जमा चीजना के मामले में, जमा के अनुरोध पर मामिक ब्याज का बुधनान किया जा सकता है पर

नोट: 2. 0.50% प्रति वर्ष दोनों योजनाओं के तहत परिप्र नागरिकों को अतिरिक्त व्याज का भूगजन किया जाएगा। चेक, दिशांद द्वापट या आरटीनीएस धगतान का माध्यम पुतः पुरसात का माध्यम चेक, डिमांड द्वापट (निवेदन पर एन्ड्रॅएक्टी वा आरटीनीएस) श्च प्रस्तवित समय अनुसूची) चोजना प्रारम्थ शीने की शिथि : 04.09.2023) समयायि निसके लिए फीयत्र या विज्ञायन वैच है : 30,09,2024 या विन वर्ष 2023-24 के एजीएम की तिथि लक, जो भी पहले हो : ष्ठ जन्मगतिर्था जुटाने के कारण या उदेश्यः निधियों की अल्पकालिक/कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए

ज प्राप्त क्रेडित रेटिंग

) ब्रेडिट रिटेंग एडेरियों का जब क्रिकिन) प्राप्त रेटिंग: ए- (प्रियर) () प्राप्त रिटिंग का अर्थ सुराक्षा करे पर्यंत्र शिक्षी) रेटिन की लिया: 50.06.2025 को फिल से पुष्टि की नई

5 जुलाई, 2018 से प्रथायी संस्थी संस्थेपन अधिनियम, 2017 द्वारा सोदा गया। रेखें जनवरित्यें, चीर कोई हो, को प्रतिशत करने के लिए युजिन या जनए जाने वाले शुरूक का रहिला विधापत लगा नहीं (क्योंकि कंपनी अप्रतिशत जमा नहींकार कर रही है) ।

 31.05.2023 तक श्रविकृत किसी भी सकाम जम का विवरणः (26.06.2023 तक) **प्रद**्ध सम्बद्धाः तर्गतः W. 235 On Billions

31.03.2023 WW

N. 256.64 प्रिशियम

437 (31.03.3023 WE)

8.25% व्यक्ति तक, तिमारी कम्पार्टेस

चुक की है।

तिथि : 03.09.2023

विधि : 03.08.2023

स्थान : नई दिल्ली

स्थान : गुरुग्राम

समाज वित्त वर्ष

शक्ति (४. मिलियन में) 31.03.2021 श्च

शुन्य 31.03.2022 शुन्य शुन्द 31.03.2023 शृन्य शुन्य ह्माम 🛪 अंपने की विश्वेष रिवर्त का राजंश जैया कि परिपत्र वा विज्ञापन जारे काने की तारीका से डीक पहले तीन लेकापरिवत उत्तर-पत्र में हैं।

34 (*1.8.31.34.33.03.04.04.04.03.04.39.31.03	(स. मिलियन में)				
विवयण	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021		
परिसम्पत्तिचः -					
रीर चालु सम्पत्तियां	2				
अचल गम्पनिया					
मूर्न सम्बन्धि	3282.19	2128.90	1999.85		
अमृतं सम्पविषा	68.67	47.49	48.70		
विशेष संपत्ति	43.40	45.44	47.48		
उपयोग की संपत्ति वह अधिकार	793.47	508.12	218.15		
प्रगतिशील पूंजी	129.65	44.25	0.45		
गैर चालू निवेश	185.18	185.18	185.46		
पूर्ण व अधिय धन	96.25	82.60	48.85		
गैर चालू कर परिसंपतियां (मृद्ध)	1063.00	645.66	261.93		
अन्य नैर चालु सम्पतियां	28.36	32.18	27.70		
	5690.17	3719.82	2838.57		
चाल् सम्पत्तियां					
मीजूदा निवेश	1.01	11.33	(*)		
अनुबंध संपत्ति	357.45	345.53	301.03		

स्कंप (ग्हतिया) 15.99 9.29 व्यावसमिक देनदार 7565.42 7631.47 5958.76 नकर्या और वैंक शेष 125.24 95.88 176.56 ऋग च अतिम धन 317.67 241.56 448.41 चाल् सम्पत्तियां 581.39 555.05 308.11 8984.95 8896.81 7202.16 विक्री के लिए रखी गई संपति 79.60 20.40 48.45 14695.52 12696.23 10089.18 अंगू पृंजी य देवनाएं अंशचरी क्रीय अंशपुनी 226.62 226.62 226.62 5440.94 4780.60 4182.34 संबंध व अंतिरेक 5667.56 5007.22 4408.96 गैरचल् राधिल दीर्पकालीन सम 2347.28 960.55 726.73 दीर्घकालीन प्राथधान अन्य दीर्घकालीन दाधित्य 146.23 154.41 94.13 रभगित कर दायित्व (शुद्ध) 120.15 78.71 68.71 सीज देनदारी 648.41 386.98 124.84 3262.07 1580.65 1014.41 चाल् देवलाएं अल्पकालीन ऋग 3729.28 4341.02 3422.27 अनुबंध देवताई 14.06 28.14 12.58 ध्यापार देवसाएं 1379.60 1207.57 905.75 अन्य चाल दायित्व 458.39 512.30 244.00 अल्पकातीन प्राथधान 20.00 20.00 15.00 पर्टा दापाच 164.56 99.33 66.21

ह्य. सफ़्रांला या विज्ञापन जारी करने की तारीख से टीक पाले के तीन वर्षों के लिए लेखाणीवित कैश फर्ता स्टेटमेंट: (त. मिलियन में) 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2021 1310.77 630.73 प्रचालन गतिविधियों शे.चें प्रयुक्त नियल नकती (A) (299.13)निवेश प्रतिविधियों से/में प्रथम निवल नकरी (18) (1484.82)(569.06)(137.45)वितीय वितिपिधयें से में प्रयुक्त नियल नकदी (C) 213.19 778.32 (421.37)नकरी तथा नकरी सम्तुल्य में पृद्धिन्तमी (A+B+C) 39.14 (89.87)71.91 वर्ष के प्रारम्भ में नकरी तथा नकरी रामतृत्व 17,47 107.34 35.43 56.61 17,47

6108.36

12696.23

🗸 पिछले तीन वर्षी के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन और कंपनी के लाभ और भंडार पर उनका प्रभाव। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) और अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं और नीतियों के अनुसार लागू सीमा तक तैयार की गई है। 5, एतद्वारा निदेशक घोषित करते हैं कि

क) कंपनी ने अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में स्वीकार की गई जमाराशियों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चुक नहीं की है। (ख) निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों और संभावनाओं के संबंध में खुद को पूरी तरह से संतृष्ट कर लिया है और उनकी राय है कि कंपनी की अनुमानित भविष्य की वित्तीय स्थिति के संबंध में, जब वे देय हो जाते हैं तो कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम होगी और कंपनी परिपत्र या विज्ञापन जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया नहीं हो जाएगी।

ग) कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए निवमों का अनुपालन किया है।

भ) अधिनियम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि जमा की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार हारा दी जाती है। छ) अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों का भुगतान कर दिया गया है (या एक वर्ष के भीतर ब्याज के साथ चुकाया जाएग

कंपनी के बोर्ड के निदेशकों के बहुमत द्वारा 28.06.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है।

5765.89

14695.52

और जब तक उन्हें चकाया नहीं जाता है तब तक उन्हें अन्य अप्रतिभूत देनदारियों के साथ अप्रतिभूति और रैंकिंग समकक्ष माना जाएगा)। हालांकि यह कंपनी (जमा की स्वीकृति नियम) 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रावधान का अनुपालन माना जाएगा यदि कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत इस तरह की पूर्व जमाराशियों की शतों और अवधि के अनुसार अपेक्षाओं के अनुपालन में ऐसी जमाराशियों की शेष अवधि के लिए देव तिथियों पर ऐसी जमाराशियों और ब्याज को चुकाना जारी रखता है।

च) क्रेंडिट रेटिंग में किसी भी तरह के प्रतिकृल बदलाव की स्थिति में जमाकर्ताओं को बिना किसी जुर्माने के जमा राशि निकालने का मौका दिया जाएगा। (छ) जमा का उपयोग केवल विज्ञापन के रूप में परिपन्न या परिपन्न में इंगित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। ज) कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियां (प्रतिभृत जमा के अलावा, यदि कोई हो, जिसकी कुल राशि का उल्लेख किया जाना है) अप्रतिभृत हैं और कंपनी

की अन्य अप्रतिभत देनदारियों के समान हैं।

अस्वीकरण-यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि रजिस्ट्रार के पास विज्ञापन के रूप में परिपत्र या परिपत्र दाखिल करना किसी भी तरह से यह नहीं माना जाना चाहिए या यह नहीं समझना चाहिए कि इसे रिजस्ट्रार या केंद्र सरकार द्वारा मंजुरी दे दी गई है या अनुमोदित कर दिया गया है। रिजस्ट्रार या केंद्र सरकार किसी भी जमा योजना, जिसके लिए जमा स्वीकार या आमंत्रित किया जा रहा है, की वित्तीय सुदृढता के लिए या विज्ञापन के रूप में परिपत्र या परिपत्र में व्यक्त किए गए बयानों या विचारों की सत्यता के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। जमाकर्ताओं को जमा योजनाओं में निवेश करने से पहले उचित सावधानी बरतनी चाहिए। जमा को आमंत्रित करने वाले परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र प्राधिकरण पर और कंपनी के निदेशकों के नाम पर जारी किया जाता है और इसके पाठ को

डीपीटी-1 पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कते सीजे डार्सल लॉजिस्टक्स लिमिटेड

कृष्ण कुमार अग्रवाल चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर

एस.आर. बाटलीबॉय एंड एसोसिएट्स एलएलपी, सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साविधिक लेखा परीक्षकों ने पृष्टि की है कि हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि कंपनी ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और अन्य अभिलेखों की पुस्तकों या जमा के पुनर्भगतान में या लेखा परीक्षित के साथ स्वीकार किए गए ऐसे जमा पर ब्याज के भगतान में

हमारा प्रमाणपत्र प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे द्वारा निष्यदित प्रक्रियाओं और प्रबंधन अध्यावेदन पर आधारित है। कते एस.आर. बाटलीबॉय एंड एसोसिएट्स एलएलप चार्टबं अकाउटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 101049W/E300004 प्रति योगेश मिधा साझेदा

सदस्यता संख्या 04941

ग्लोबस पाँवर जनरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : श्याम हाउस, ३, आम्रपाली सर्कल, वैशाली नगर, जयपूर – 302021, राजस्थान, भारत **दूरभाष :** 91-141-4025631, फैक्स : 91-141-5100310

निगमित कार्यालयः ए – 60, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज – ।, नई दिल्ली – 110028 दूरभाष : 91-11-41411071 / 72, फैक्स : 91-11-25792194 वेबसाइट: www.gpgl.in, ईमेल: globuscdl@gmail.com,

सीआईएन: L40300RJ1985PLC047105 38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्लोबस पॉवर जनरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') की 38वीं (अड़तीसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को मध्या. 11.30

बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल संसाधने (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिस बैठक में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित लागू प्रावधानों तथा एमसीए जनरल सर्कूलर नंबर 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 जो एमसीए जनरल सर्कूलर नंबर 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020; 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020; 20/2020 दिनांक 05 मई 2020; 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 और 02/2022 दिनांक 05 मई 2022 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 ("सूचीबद्धता विनियमावली") जो कि सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020; 15 जनवरी 2021; 13 मई 2022 एवं 05 जनवरी, 2023 (''सेबी परिपत्र'') के साथ पठित है, के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का, किसी साधारण स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना संचालन किया जायेगा।

उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना, कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गयी है, जिनके नाम शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को व्यावसायिक घंटे बंद होने के समय पर सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे और जिनके ईमेल पते, कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रा और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेद लिमिटेड / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सूचन और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.gpgl.in और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

4665.81

10089.18

ई-वोटिंग जानकारी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से. एजीएम म संचालित किये जाने हेतू प्रस्तावित व्यवसायों के संदर्भ में निम्नलिखित विधि के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग करने की स्विधा, अपने उन सदस्यों को उपलब्ध करा रही है जो बृहस्पतिवार 21 सितंबर 2023 (कट ऑफ तिथि) वे अनुसार अभौतिक अथवा भौतिक प्रारूप में समता अंशों का धारण किये हये हैं।

रिमोट ई-वोटिंग : रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ सोमवार 25 सितंबर 2023 को प्रात

10.00 बजे होगा तथा समापन बुधवार 27 सितंबर 2023 को सायं 5.00 बजे होगा। उक्त अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित प्रदान नहीं की जायेगी। एजीएम में ई-वोटिंग : रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिये एजीएम में भी उपलब्ध करायी जायेगी. जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं तथा जो

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अभौतिक अथवा भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करने वाले तथा अपने

ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं पाये सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग किये जाने की प्रविधि, ई-वोटिंग के लिये लॉगिन आईडी व पासवर्ड से संबंधित अनुदेश एवं प्रक्रिया का उल्लेखन एजीएम की सूचना में किया गया है। कोई भी व्यक्ति, जो कि एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरांत कंपनी के अंश उपार्जित

2023 के अनुसार अंशों का धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप ई-वोटिंग वे लिये पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपने वोट डालने के लिये अपने विद्यमान प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने एजीएम की सुचना से पूर्व ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल दिये हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, किंत्

करता है तथा कंपनी का एक सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात 21 सितंबर

ई-मेल पतों को पंजीकृत करने / अद्यतन करने करने की प्रविधि : (क) भौतिक रूप में धारित अंश : कृपया पैन और केवाईसी विवरणों को अन्य प्रासंगिक

उन्हें एजीएम में पूनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

प्रपत्रों और प्रलेखों के साथ विधिवत भरे गये एवं हस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्म आईएसआर— (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के साथ जमा करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस तृतीय तल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे, नई दिल्ली – 110062 पर beetalrta@gmail.com पर ईमेल के द्वारा पंजीकृत करें। (ख) अभौतिक रूप में धारित अंश : कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा बताई गई

प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अद्यतन करने के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। बही समापन : अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीकरण विनियमावली के विनियम 42 वे

अनपालन में. कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश अंतरण बहियां. शक्रवार 22 सितंबर 2023 से लेकर के बृहस्पतिवार 28 सितंबर 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी सदस्यों से विनती हैं कि वे रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रविधि तथा एजीएम में उपस्थित होने के लिये निर्धारित अनुदेशों सहित एजीएम की सूचना में नियत समस्त टिप्पणियों / अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण कंपनी के कंपनी सचिव से फोन नंबर 011-41411071 या ईमेल globus@gmail.com पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडी beetalrta@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या 011-29961281 / 82 पर कॉल कर सकते हैं। बोर्ड के आदेशानुसार

> कृते ग्लोबस पॉवर जनरेशन लिमिटेड हस्ता. /-

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02 सितंबर, 2023

कामिनी कंपनी सचिव

गारीपुर्वति प्रदे प्रिर्वति

जगकर्ताओं की कल गंदर

म । फुल श्वीकृत सर्वत

च मात्र को दर

www.readwhere.com

जनारशियों के पुतर्शुगतन में पूक, यदि कोई हो, और उस पर ब्याज का भूगतान, चंद्र कोई हो, जमावालीओं की ग्रांक्या, ताीर और स्वधित चुक्र की आवधि स्वधित : 📆 - जमकर्ताओं प्राप्त जमातींगर्वे पर अर्जित म्यान की ओई पूट

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसी मामले में यदि ईमेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है, तो

बॉनलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

4. कम्पनी की वित्तीय स्थिति

कः कर के प्रावधान के पूर्व एवं पश्चात कम्पनी का लाभ (रु. मिलियन में) समाप्त वित्त वर्षकर पश्चात लाभ 31.03.2021 405.49 303.61 787.94 31.03.2022 605.23 31.03.2023 842.63 659.54 छ. उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश और व्याज कवरेज अनुपात।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 02 सितंबर, 2023